



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं० पटना 652) पटना, बुधवार, 11 जुलाई 2018

सं० 5/आ01-103/2016-551

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

25 जुन 2018

श्री अशोक कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर (सम्प्रति सेवानिवृत्त) द्वारा श्री कमल किशोर शर्मा, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, दरभंगा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध निविदा आवंटन में धांधली एवं मनमानी करने से संबंधित वित्तीय मामले की जाँच लंबित रखते हुए सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने, विभाग द्वारा दिये गये निर्देश एवं तदुपरांत बार-बार स्मारित किये जाने के बावजूद जाँच प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने का मामला सरकार के संज्ञान में आया।

2. मामले की सम्यक् समीक्षा की गई एवं श्री जायसवाल के विरुद्ध उक्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के उपरान्त उनके विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी) के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं०-700 दिनांक 01.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

3. अपर सदस्य राजस्व पर्षद्-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक-392 दिनांक 09.08.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें श्री जायसवाल के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित बताया गया।

4. जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपित पदाधिकारी श्री जायसवाल से विभागीय पत्रांक-628, दिनांक 21.08.2017 एवं विभागीय पत्रांक-791, दिनांक 21.09.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

5. आरोपित पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-शून्य, दिनांक 18.10.2017 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी के प्रत्युत्तर/लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उनका बचाव बयान स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया।

6. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

- पेंशन से पच्चीस प्रतिशत (25%) राशि की अगले 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती।

7. उपर्युक्त दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

8. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नवीन कुमार,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 652-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>